



PRATIPADA SHRADDHA || प्रतिपदा श्राद्धः पितृ पक्ष की पहली पवित्र विधि कैसे करे ||

पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध (प्रतिपदा श्राद्ध) 2024:

पितृ पक्ष हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जो पूर्वजों (पितरों) की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। यह समय श्रद्धा, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का होता है। पितृ पक्ष की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से होती है, जिसे *पहला श्राद्ध* कहा जाता है।

पितृ पक्ष का प्रारंभ और पहला श्राद्ध 2024:

साल 2024 में *प्रतिपदा* श्राद्ध 18 सितंबर, बुधवार को होगा। पितृ पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से होगी और यह 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस दिन का विशेष महत्व उन लोगों के लिए होता है जिनके परिवारजनों का निधन प्रतिपदा तिथि (पहली तिथि) पर हुआ हो।

प्रतिपदा श्राद्ध का महत्व:

प्रतिपदा श्राद्ध विशेष रूप से उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, जिनका निधन चंद्र माह की प्रतिपदा तिथि को हुआ हो। इस दिन किया गया श्राद्ध पूर्वजों को संतुष्ट करता है और उनके आशीर्वाद से घर में शांति और समृद्धि आती है। इसे करने का मुख्य उद्देश्य पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और उनकी आत्मा को तृप्त करना है।

प्रतिपदा श्राद्ध के अनुष्ठान:

1. श्राद्ध कर्म:

श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से पूर्वजों को अर्पण करना है। इसमें पितरों को श्रद्धा और भक्ति से भोजन, जल और वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। भोजन विशेष रूप से सात्विक और शुद्ध होना चाहिए, जिसमें तिल, चावल, दाल, और घी का प्रयोग होता है।

2. तर्पण:

तर्पण एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसमें जल और तिल का अर्पण किया जाता है। यह पितरों

की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इसे पवित्र नदी या जलाशय में किया जाता है, लेकिन घर में भी इसे संपन्न किया जा सकता है।

3. पिंडदान:

पिंडदान में चावल, जौ, और तिल का मिश्रण बनाकर पिंड (गोल आकार) तैयार किए जाते हैं, जो पितरों के नाम पर अर्पित किए जाते हैं। यह अनुष्ठान मृत आत्माओं को तृप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है।

4. ब्राह्मण भोजन और दान:

श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इसे "ब्राह्मण भोज" कहा जाता है, और इसमें उन्हें सात्विक भोजन कराकर वस्त्र, धन या अन्य आवश्यक वस्तुएँ दान की जाती हैं।

प्रतिपदा श्राद्ध की प्रक्रिया:

• पूजा और पवित्रता:

श्राद्ध अनुष्ठान को करने से पहले शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। श्राद्धकर्ता को स्नान कर शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए।

• अर्पण:

श्राद्ध में पितरों को फल, मिठाई, दही, दूध, और अन्य शुद्ध वस्तुएँ अर्पित की जाती हैं। इसके साथ ही जल और तिल से तर्पण किया जाता है।

• पिंडदान और दान-पुण्य:

पिंडदान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया जाता है और गरीबों व जरूरतमंदों को दान-पुण्य किया जाता है।

पितृ पक्ष में तिथि का चयन:

पितृ पक्ष में श्राद्ध अनुष्ठान उस तिथि पर किया जाता है जिस दिन परिवार के सदस्य का निधन हुआ था। अगर मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना श्रेयस्कर होता है। प्रतिपदा श्राद्ध उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पितरों का निधन प्रतिपदा तिथि को हुआ हो।

पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध (प्रतिपदा श्राद्ध) पूर्वजों को सम्मान और श्रद्धा अर्पित करने का एक पवित्र अनुष्ठान है। इस दिन किए गए श्राद्ध कर्म और तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से घर में समृद्धि और सुख-शांति का वास होता है। 2024 में पितृ पक्ष का यह महत्वपूर्ण दिन 17 सितंबर को पड़ेगा।

Read More religious content on

vedicprayers.com